


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य सभा निर्वाचन, मध्यप्रदेश

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मई, 2010 (ज्येष्ठ 10, 1932)

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन

अधिसूचना

क्र. विधान-आर.एस.निर्वा.-10(1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, मैं, डॉ. ए. के. पयासी, रिटर्निंग ऑफिसर, मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिये राज्य सभा में तीन स्थानों को भरने के लिये, जिनका कार्यकाल 29 जून, 2010 को समाप्त हो रहा है, निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से सभिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02), मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल को ऐसे स्थान के रूप में नियत करता हूँ जहां निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 318-2-2010 (1), दिनांक 31 मई, 2010 के अनुसरण में उक्त निर्वाचन के लिये मतदान होगा.

स्थान : मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल

दिनांक : 31 मई, 2010 (ज्येष्ठ 10, 1932)

डॉ. ए. के. पयासी
रिटर्निंग ऑफिसर.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, COUNCIL OF STATES ELECTION, MADHYA PRADESH

Bhopal, the 31st May, 2010 (Jaistha 10, 1932)

Biennial Election by the elected members of Madhya Pradesh
Legislative Assembly to fill the vacancies in the Council of States.

NOTIFICATION

No. Vidhan-R.S. Nirva-10 (1).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 29 of the Representation of the People Act, 1951, I, **Dr. A. K. Payasi, Returning Officer** for the election by the elected members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly to fill three seats in the Council of States, on the retirement of three members on the **29th June, 2010**, hereby fix, with the previous approval of the Election Commission, the **Committee Room No. 2 (M-02) of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhawan, Bhopal**, as the place of poll at which a poll will be taken in pursuance of the **Election Commission's Notification No. 318/2/2010(1), dated the 31st May, 2010**.

Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhawan, Bhopal

Dated : the 31st May, 2010 (Jaistha 10, 1932)

Dr. A. K. PAYASI
Returning Officer.

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य सभा निर्वाचन, मध्यप्रदेश

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मई, 2010 (ज्येष्ठ 10, 1932)

निर्वाचन की सूचना

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन

क्र. विधान-आर.एस.निर्वा.-10(2).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि—

- (1) मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन होना है;
- (2) नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा दिनांक 7 जून, 2010 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के बीच मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल में परिदत्त किये जा सकेंगे;
- (3) नाम-निर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे;
- (4) नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के लिये मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल में दिनांक 8 जून, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे लिये जावेंगे;
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 10 जून, 2010 को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी; तथा
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 17 जून, 2010 को प्रातः 9.00 बजे और अपराह्न 4.00 बजे के बीच मतदान होगा.

स्थान : मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल

दिनांक : 31 मई, 2010 (ज्येष्ठ 10, 1932)

डॉ. ए. के. पयासी
रिटर्निंग ऑफिसर.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, COUNCIL OF STATES ELECTION, MADHYA PRADESH

Bhopal, the 31st May, 2010 (Jaistha 10, 1932)

NOTICE OF THE ELECTION

Biennial Election by the elected members of Madhya Pradesh Legislative Assembly to fill the vacancies in the Council of States.

No. Vidhan-R.S. Nirva-10 (2).—Notice is hereby given that—

- (1) an election is to be held of three members to the Council of States by the elected members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly;
- (2) nomination papers may be delivered by candidate or his proposer to the Returning Officer or to the Assistant Returning Officer at the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhawan, Bhopal between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than the 7th June, 2010;
- (3) forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid;
- (4) the nomination papers will be taken up for scrutiny at 2.00 p.m. on the 8th June, 2010 at the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhawan, Bhopal;
- (5) notice of withdrawal of candidature may be delivered by the candidate or his proposer or his election agent, who has been authorised in writing by the candidate to deliver it, to either of the Officers specified in paragraph (2) above at his office before 3.00 p.m. on the 10th June, 2010; and
- (6) in the event of the election being contested the poll will be taken on the 17th June, 2010 between the hours of 9.00 in the morning and 4.00 in the afternoon.

Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhawan, Bhopal

Dated : the 31st, May, 2010 (Jaistha 10, 1932)

Dr. A. K. PAYASI
Returning Officer.